21st August, 2024

The Listing Department
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400001
Symbol: 532934

The Listing Department
The National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai - 400051
Symbol: PPAP

Subject: Newspaper advertisement confirming dispatch of Annual Report for the financial year ended 31<sup>st</sup> March, 2024

Dear Sir,

In terms of Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, enclosing newspaper clippings published on 21<sup>st</sup> August, 2024 regarding completion of dispatch of the annual report for the financial year ended 31<sup>st</sup> March, 2024 to the shareholders, in the following newspapers:

- 1) Business Standard (English) All India
- 2) Business Standard (Hindi) NCT of Delhi

This is for your information and record.

Thanking you,
Yours faithfully,
For **PPAP Automotive Limited** 

Pankhuri Agarwal
Company Secretary & Compliance Officer

## SALE NOTICE under IBC,2016

VEDA BIOFUEL LIMITED (in Liquidation) CIN - U24100AP2010PLC070652 Liquidator's Office:# 6-3-249/6, "Alcazar Plaza & Towers", Road No. 1, Banjara Hills, Hyderabad - 500 034 email: liquidator.vbfl@aaip.co.in

## E-AUCTION

Notice is hereby given to the public at large for inviting bids for Sale of the Assets o M/s. VEDA BIOFUEL LIMITED (in Liquidation) having its registered office at H.No.50-50-15/2, SEETHAMMADARA BEHIND GURUDWARA, VISAKHAPATNAM, Andhra Pradesh ndia 530013 Sale as a Going Concern by the Liquidator, appointed by the Hon'ble National omnany Law Tribunal Amarayathi Banch, vide order dated 03 09 2021

Company Law Induital, Analastatin Barion, Vido Gradi dated 00.00.2021.							
Description	Date and	Reserve	EMD	Bid increment			
Description	time of auction.	Price	(Refundable)	Amount			
Corporate debtor as a	16th September 2024	Rs.75.00	Rs.	Rs.0.10			
whole (as a going	IST: 12:00PM	crores	7.50 Crores	crores			
concern basis)	to 02:00PM						

I.The Sale will be done by the undersigned through e-Auction platform https://nesl.co.in/ (With

unlimited extension of 5mins each). The sale is on "as is where is ", "as is what is", "what ever there is ", "with out any recourse "basic 2. The sale is of lasts where is , as is what is , what ever there is , with out any recourse basis. B. For detailed terms & conditions of e-Auction sale refer COMPLETE E-AUCTION PROCESS OCCUMENT can be obtained by sending an email to the Liquidator at liquidator.vbfl@aaip.co.in Ph. No. 9959223615 or can also be obtained by sending an email to Mr. S Upendra Reddy, Emai

csupendrareddys@gmail.com, Ph. No 7799278523. For E-Auction details & participation, contact Mr.Araventhan S E, Phone No.93846 76709 Email: araventhanse@nesl.co.in OR Gunjan Narula, Phone No. 8178446956, Email gunjann@nesl.co.in.

5. The last date and time for submission of Expression of Interest (EOI) by the interested bidders ST 5:00 PM on04.09.2024.

Inspection Date & Time 21st August 2024 to 4th September 2024 during working hoursThe last date and time for payment of EMD & other forms only by qualified bidders is IST 5:00 PM.

3. Interested bidders are requested to visit the above-mentioned websites and submit their bid. The liquidator has the right to accept or cancel or extend or modify any terms and conditions of the

10. Any Addendum / clarifications & modification in the e-auction notice or the process document to this e-auctionnotice can obtain by sending an email to the Liquidator at liquidator.vbfl@aaip.co.in No public announcement or paper publication or any other mode will be made

Place:Hvderabad Date:21.08.2024

Sd/-Dr. Kondapalli Venkat Srinivas Reg. No. IBBI/IPA-001/IP-POO520/2017-18/10945 Liquidator, VEDA BIOFUEL LIMITED Email liquidator.vbfl@aaip.co.ir lp kvs@assetsadvisorv.com



### SURYODAY SMALL FINANCE BANK LIMITED

CIN: L65923MH2008PLC261472 Registered and Corporate Office: Unit No. 1101, Sharda Terraces, Plot No. 65 Sector-11, CBD Belapur, Navi Mumbai-400614. Tel No: +91 22 4185 6700 Website: <u>www.suryodaybank.com</u> Email ID: <u>company.secretary@suryodaybank.com</u>

### Notice of the 16th (Sixteenth) Annual General Meeting and E-voting information

NOTICE is hereby given that the Sixteenth (16th) Annual General Meeting ("AGM") of the members of Suryoday Small Finance Bank Limited (the "Bank") will be held on Thursday, September 12, 2024, at 3:30 p.m. Indian Standard Time ("IST") through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the businesses as set out in the Notice of the 16th AGM dated August 19, 2024.

In compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the "Act") and the rules made thereunder, and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 05, 2020, 2/2022, 3/2022 dated May 05, 2022, 10/2022 dated December 28, 2022 and the latest being No.09/2023 dated September 25, 2023, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and the Securities and Exchange Board of India (the "SEBI") vide Master Circular dated July 11, 2023 read with other Circulars issued by SEBI and the latest being SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023 and other applicable Bules / Circulars if any on the matter In compliance with all the applicable provisions of the Companies Act. 2013 October 7, 2023 and other applicable Rules / Circulars, if any, on the matter, issued by the MCA and SEBI in this regard (hereinafter collectively referred to as "Applicable Circulars") permitted the holding of the AGM through VC/OAVM on or before September 30, 2024, without physical presence of the Members at a common venue and relaxation from dispatching of physical copy of the Annual Report. Accordingly, in compliance with the provisions of the Act, SEBI Listing Regulations and the Applicable Circulars, the 16th AGM of the Bank is being conducted through VC/OAVM mode, without the physical presence of members. Hence, Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM. The Bank has appointed KFin Technologies Limited, Registrar and Transfer Agents Bank has appointed KFin Technologies Limited, Registrar and Transfer Agents ("KFintech" or "RTA"), to provide facility for e-voting and VC facility for the AGM and the attendant enablers for conducting the e-AGM. Members attending the AGM through VC/OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act. The Notice of the 16" AGM along with the Annual Report of the Bank for the Financial Year 2023-24 have been sent through electronic mode to all the members of the Bank whose e-mail IDs are registered with the Bank's RTA/ or relevant Depository Participant(s). The despatch of the Notice of AGM along with the Annual Report to the members through e-mail has been completed on Tuesday, August 20, 2024.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Act, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations and Secretarial Standards on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Bank is providing to all its members (holding shares either in physical form or in dematerialised form), the facility to exercise their right to vote on the resolutions proposed to be considered at the 16th AGM through remote e-voting or e-voting ing the AGM (collectively referred as "E-voting"). The detailed instructions fo -voting are provided in the Notice of the AGM.

Members are hereby informed that:

- All of the businesses as set out in the Notice of the 16th AGM shall be transacted through e-voting i.e., through Remote e-voting or voting during AGM (Instapoll): The Cut-off date for determining the eligibility to vote by e-voting system at
- the AGM shall be Thursday, September 05, 2024. (iii) The remote e-voting period shall commence on Saturday, September 07, 024 at 9:00 a.m. (IST) and end on Wednesday, Sept
- 5:00 p.m. (IST). (iv) A person, whose name appears in the Register of Members/Beneficial Owners maintained by the Depositories/ Kfintech as on the Cut-off date i.e. Thursday, September 05, 2024 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting during the AGM through InstaPoll.
- (v) Any person who acquires shares of the Bank and becomes member of the Bank after despatch of Notice of the AGM and holding shares as on the Cut-off date i.e. **Thursday, September 05, 2024,** may obtain the login ID and password by sending an e-mail at <a href="mailto:evoling@Kfintech.com">evoling@Kfintech.com</a>. However, if he / she is already registered with KFintech for remote e-voting then he / she can use his / her existing User ID and password for casting the vote.
- (vi) Information and instructions including details of User ID and Password relating to e-voting have been sent to the Members through e-mail. The same login credentials should be used for attending the AGM through VC/ OAVM facility
- (vii) Members may note that:
  - a) The remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. (IST) or Wednesday, September 11, 2024.
  - b) the facility for e-voting will also be made available during the AGM and to those members who would be attend the AGM through VC/OAVM and who have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through the Instapoll system during the AGM.
  - c) the members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their votes again; and d) only persons whose names are recorded in the register of members of
- in the register of beneficial owners maintained by the depositories/ RTA as on the cut off dates shall be entitled to avail the facility of e-voting
- (viii) The voting rights of members shall be in proportion to their shares in the paid-up equity share capital of the Bank as on the cut-off date i.e. Thursday, September 05, 2024, subject to the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, as amended. (ix) A copy of the Notice of AGM along with the Annual Report for the financia
- year 2023-24 inter-alia indicating the process and manner of remote e-voting and e-voting during AGM have been sent by electronic mode to all those members whose e-mail addresses are registered with the Bank / lits RTA or relevant Depositories in accordance with the aforesaid MCA Members may note that the Notice of AGM and Annual Report for the financial year 2023–24 will also be available on the websites of the Bank (at <a href="https://www.suryodaybank.com">https://www.suryodaybank.com</a>), website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited (<a href="https://www.bseindia.com">https://www.bseindia.com</a>), National Stock Exchange of India (<a href="https://www.nseindia.com">https://www.nseindia.com</a>) and on the website of Service Provider i.e. KFintech (<a href="https://evoting.kfintech.com">https://evoting.kfintech.com</a>) in compliance with the relevant
- In case of any query and/or grievance, in respect of voting by electronic means Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddy Telangana, India - 500 032, E-mail ids: <a href="mailto:einward.ris@kfintech.com">einward.ris@kfintech.com</a> ; <a href="mailto:unard.ris@kfintech.com">umesh.pandey@kfintech.com</a> or call to RTA at toll free No. 1-800-309-4001 for any further clarifications or write to Company Secretary of the Bank at registered office or at <a href="mailto:unard.rismark.rismar
- Pursuant to the provisions of Section 91 of the Act read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and other applicable provisions of SEBI Listing Regulations, Register of Members and Share Transfer Books of the Bank shall remain closed from Friday, eptember 06, 2024 to Thursday, September 12, 2024 (both days inclusive

Members who have not registered their e-mail address may register their -mail addresses with the Bank, as mentioned hereunder:

 For shareholders holding share(s) in physical form - SEBI wide Section \u2205 of it's Master Circular for Registrars to an Issue of 'Share Transfer Agents dated May 07, 2024 has made mandatory for shareholders holding share of the Bank in physical form, to, inter-alia update their KYC including contact details, e-mail address, Mobile Number, Bank Details, choice of Nominations, etc by furnishing requisite detail in Form ISR-1. In this connection, the form, as notified by SEBI, along with other requisite detail are available at the Banks website at https://www.suryodaybank.com/ Availing-Investor.

Place: Navi Mumbai

Date: August 20, 2024

For Demat Holders – Members holding shares of the Bank in electronic form can verify/update their respective e-mail addresses with their respective Depository Participant(s).

For Suryoday Small Finance Bank Limited Krishna Kant Chaturved Company Secretary & Compliance Officer







Statutory Body under The Government of India Core-5A, 3rd - 5th Floor, India Habitat Centre Lodhi Road, New Delhi - 110003

Financial Results for the Quarter and FY Ended June 30, 2024 (₹ in lakhs)						
Particulars		Year Ended 30.06.2024	Year Ended 30.06.2023	Quarter Ended 30.06.2024	Quarter Ended 30.06.2023	
		Audited	Audited	Audited	Audited	
1.	Total Income from operations <sup>a</sup>	6,47,081.54	4,82,345.39	1,76,687.76	1,40,024.69	
	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and /or Extraordinary items#)	2,24,761.38	1,70,961.25	57,471.74	56,439.07	
	Net Profit/(Loss) for the period before tax, (after Exceptional and /or Extraordinary items#)	2,24,761.38	1,70,961.25	57,471.74	56,439.07	
	Net Profit/(Loss) for the period after tax(after Exceptional and /or Extraordinary items#)	1,66,360.39	1,26,176.05	42,920.74	42,239.07	
	Total Comprehensive income for the period[comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income(after Tax)]	NA	NA	NA	NA	
6.	Paid-up capital (wholly owned by Government of India)	1,45,000.00	1,45,000.00	1,45,000.00	1,45,000.00	
7.	Reserves excluding Revaluation Reserves <sup>s</sup>	13,20,076.74	11,53,202.76	13,20,076.74	11,53,202.76	
8.	Securities Premium Account	NA	NA	NA	NA	
9.	Net Worth (₹ in Cr)	13,386	11,903	13,386	11,903	
10.	Paid up Debt Capital/Outstanding Debt	94,40,289.97	84,41,758.19	94,40,289.97	84,41,758.19	
11.	Outstanding Redeemable Preference Shares	NIL	NIL	NIL	NIL	
12.	Debt - Equity Ratio*	6.44	6.50	6.44	6.50	
13.	Earning Per Share (EPS)	NA	NA	NA	NA	
	(a) Basic	NA	NA	NA	NA	
	(b) Diluted	NA	NA	NA	NA	
14.	Capital Redemption Reserve	NA	NA	NA	NA	
15.	Debenture Redemption Reserve	NA	NA	NA	NA	
16.	Debt Service Coverage Ratio	NA	NA	NA	NA	
17. Interest Service Coverage Ratio		NA	NA	NA	NA	

& Income from operations includes Interest Income on Advances, Bank Deposits and Investments.

\*Debt denotes total Borrowings and Equity denotes Capital plus Reserves and surplus

# - Exceptional and /or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with IndAS Rules/AS Rules, whichever is

\$ For the quarter ended taken as per balance sheet of previous accounting year Notes:

Date: August 20, 2024

- The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on August 20, 2024 at New Delhi
- The above is an extract of the detailed format of quarterly /yearly financial results filed with the Stock Exchange(s) under regulation 52 of the LODR Regulations, 2015. The full format of the quarterly/yearly financial results is available on the websites of the BSE and NSE (www.bseindia.com/www.nseindia.com) and the Bank's Website (www.nhb.org.in).
- For the other line items referred in regulation 52(4) of the Listing Regulations, pertinent disclosures have been made to the BSE and NSE and can be accessed on the URL (www.nseindia.com and www.bseindia.com)
- The impact on net profit/loss, total comprehensive income or any other relevant financial item(s) due to change(s) in accounting policies shall be disclosed by means of a footnote. NIL For and on behalf of the Board of Directors Place: New Delhi Sanjay Shukla

# **PTC India Financial Services Limited**



 $18^{\rm th}$  annual general meeting ("agm") of PTC india financial services limited to be held through video conferencing  $\it /$ **OTHER AUDIO VISUAL MEANS** 

- Notice is hereby given that the 18th Annual General Meeting ("AGM") of PTC India Financial Services Limited (the "Company") is scheduled to be held on Thursday, the 12th September, 2024 at 11:00 A.M. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), in compliance with General Circular No. 09/2023 dated 25 September 2023, General Circular No. 10/2022 dated 28 December 2022, General Circular No. 02/2022 dated 5 May 2022, General Circular No. 02/2021 dated 13 January 2021, General Circular No. 20/2020 dated 5 May 2020, General Circular No. 17/2020 dated 13 April 2020, General Circular No. 14/2020 dated 8 April 2020 (collectively referred to as "MCA Circulars"), and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated 7 October 2023 ('SEBI Circular') issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (collectively referred to as the 'Circulars') to transact the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of the AGM.
- In Compliance with the above MCA and SEBI Circulars, the electronic copies of the AGM Notice along with the Annual Report for Financial Year 2023-2024 will be sent to all the shareholders, whose email addresses are registered / available with the Company/ Depository Participants as on August 9, 2024 (closing hours)
- Members who have not registered their email addresses are requested to register their email addresses and mobile numbers with their respective Depositories through Depository Participants.
  - The Notice of the AGM and the Annual Report will also be made available on the Company's website at www.ptcfinancial.com/cms/showpage/page/annual-reports and also on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com. Members may also demand a hard copy of the same via. writing us at info@ptcfinancial.com.
- Members are requested to update their KYC in their folio(s), register their email addresses, and bank account details or may intimate any changes if required. The process of registering/changing the same is mentioned below:

In case, Physical Register/update the details in prescribed Form ISR-1 and other relevant forms with Company's Share Holding Transfer Agent i e

KFIN TECHNOLOGIES LIMITED Selenium Building, Tower-B, Plot No 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad,

Rangareddy, Telangana, 500 032 Tel: 040-67162222

Fax: 040-23001153 E-mail: einward.ris@kfintech.com Website: www.kfintech.com

The said forms and relevant provisions of SEBI circular (circular no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 dated March 16, 2023, as amended) are available on the Company's website at the link www.ptcfinancial.com In the absence of any of the required documents in a folio, on or after October 1 2023, the folio shall be frozen by the RTA. Intimation letters along with Business Reply Envelopes for furnishing the required details are being sent by the Company.

In case, Demat Please contact your DP and register email address and bank account details in your demat account, as per the process advised by your DP Holdina

Members, who are holding shares in physical/electronic form and their e-mail addresses are not registered with the Company/their respective Depository Participants, are requested to register their e-mail addresses at the earliest for receiving the investor communications including Annual Report 2023-24 along with AGM Notice, by following the process

For temporary registration of email for the purpose of receiving of AGM Notice along with annual report for 2023-24, members may write to einward.ris@kfintech.com.

- The remote e-voting period commences on Monday, September 09, 2024 (09:00 A.M.) and ends on Wednesday, September 11, 2024 (05:00 P.M.). The members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of September 05, 2024 may cast their vote by remote e-voting or by e-voting at the time of AGM. Members who have not cast their votes by remote e-voting will be able to vote at AGM through e-voting.
- Members will have the opportunity to cast their vote electronically on the business as set out in the AGM Notice through remote e-voting or e-voting to be conducted at the AGM. For the Members whose email addresses are registered with the Company/ Depositories, login details for e-voting and attending AGM would be sent to their registered email addresses. Members whose credentials are not registered with the Company/ Depositories, the detailed procedure for voting and attending AGM will be provided in AGM Notice, which will also be available on Company's website www.ptcfinancial.com/cms/showpage/page/annual-reports. The Members are requested to visit the Website
- For Individual Members holding shares in electronic form with Depositories viz. NSDL and CDSL should log in through the sites of NSDL and CDSL to cast the votes during the remote e-voting period. However, for VC / OAVM meeting all the Members should log in at https://evoting.kfintech.com to participate in the meeting and also to cast vote in case they have not voted during the remote e-voting period.
- The Company has engaged the services of M/s KFin Technologies Limited ('Kfin') as the agency to provide the electronic voting facility and VC facility. In case of any query and/or grievance, in respect of voting by electronic means, Members may refer to the Help & Frequently Asked Questions (FAQs) and E-voting user manual available at the download section of http://evoting.kfintech.com/public/Faq.aspx (Kfin Website) or contact Mr. Raj Kumar Kale, Assistant General Manager-RIS at rajkumar.kale@kfintech.com or evoting@kfintech.com or call KFin's Toll Free No. 1800-309-4001 for any other further clarifications
- 10. The Notice of the 18th AGM will be sent, shortly, to the members in accordance with the applicable laws on their registered email addresses.

By order of the Board of Directors For PTC India Financial Services Limited

Date: August 20, 2024 Place: New Delhi

Shweta Agrawal Company Secretary & Compliance Officer

CIN: L65999DL2006PLC153373 Regd. Office:7th Floor, Telephone Exchange Building, 8 Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110 066 Ph: +91 11 26737300 / 26737400 Fax: 26737373 Website: www. ptcfinancial.com, E-mail: info@ptcfinancial.com



## PPAP AUTOMOTIVE LIMITED

CIN: L74899DL1995PLC073281

Registered Office: 54, Okhla Industrial Estate, Phase-III, New Delhi-110020 Corporate Office: B-206A, Sector-81, Phase-II, Noida-201305, Uttar Pradesl Tel: +91-120-4093901

Website: www.ppapco.in, E-mail ID: investorservice@ppapco.com

### NOTICE

Notice is hereby given that the 29<sup>th</sup> Annual General Meeting ("AGM") of the members of PPAP Automotive Limited ("Company") will be held on Friday, 13<sup>th</sup> September, 2024 at 11:30 a.m. (IST) through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM"), to transact the business set out in the notice convening the 29<sup>th</sup> AGM, in accordance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act"), and the rules made thereunder, read with Ministry of Corporate Affairs General Circular no 20/2020 dated 5<sup>th</sup> May, 2020 and 09/2023 dated 25<sup>th</sup> September, 2023 issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) read with SEBI Circular dated 7<sup>th</sup> October, 2023. The venue of AGM shall be deemed to be Registered Office of the Company i.e 54, Okhla Industrial Estate, Phase III, New Delhi-110020.

In compliance with the above mentioned circulars, electronic copy of the notice of the 29" AGM along with annual report for the financial year 2023-24 has been sent only by 29 AGM along with annual report for the linancial year 2023-24 has been sent only by electronic mode to those members whose email addresses are registered with the Company / Registrar & Transfer Agents ("#TA") / Depository Participants ("#DP") on Tuesday, 20" August, 2024. The notice for 29" AGM and annual report for the financial year 2023-24 can also be accessed at the website of the Company, i.e. www.papco.in and on the website of RTA, i.e. <a href="https://instavote.linkintime.co.in">https://instavote.linkintime.co.in</a> and on the website of RTA, i.e. <a href="https://instavote.linkintime.co.in">https://instavote.linkintime.co.in</a> and on the website of the stock exchanges i.e. BSE Limited at <a href="https://www.bseindia.com">www.bseindia.com</a> and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com.

In compliance with Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide the facility of e-voting to its members to enable them to cast their votes on the resolutions proposed to be passed at the 29th AGM by electronic means using remote e-voting system. The members may further note the following:

- Pursuant to Section 91 of the Act and the Rules framed thereunder, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 07th September, 2024 to Thursday, 12th September, 2024 (both days inclusive) for the purpose of 29th AGM and dividend.
- Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Friday, 06<sup>th</sup> September, 2024 only, would be eligible to attend AGM through VC / OAVM and cast their vote either through remote e-voting or through insta Poll during the AGM. A person whose name is recorded in the Register of Members/Beneficial owners as on the cut-off date shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting/e-voting at the AGM and a person who is not a member as on the cut- off date should treat the Notice of AGM for information purpose only.
- The remote e-voting period commences on Monday,  $09^{\text{th}}$  September,  $202 \cdot (9:00 \text{ a.m. IST})$  and ends on Thursday,  $12^{\text{th}}$  September,  $2024 \cdot (5:00 \text{ p.m. IST})$ Remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.
- Any person who acquires the shares of the Company and becomes member pos dispatch of the notice of the AGM and holds shares on the cut-off date i.e. Friday, 06" September, 2024 may approach Company / RTA for obtaining login id and password, and to cast his/her vote.
- Those members, who intend to participate in the AGM through VC / OAVM facility and could not cast their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM. Further members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may attend the AGM through VC/OAVM but shall not be eligible to vote at the AGM.
- Once the vote on a resolution is casted by the members electronically, the members shall not be allowed to change it subsequently.
- Members who have not registered their email address are requested to register the same, in respect of shares held in physical form, members can register by clicking on the link: <a href="https://liiplweb.linkintime.co.in/EmailReg/Email\_Register.html">https://liiplweb.linkintime.co.in/EmailReg/Email\_Register.html</a> and following the registration process guided therein and in respect of shares held in demat form members may temporarily register their email address by clicking on above mentioned link and following the registration process guided therein, but for permanent registration members shall approach the respective DP. In case of any query, a member may send an email to RTA at <a href="mailto:rnt.helpdesk@linkintime.co.in">rnt.helpdesk@linkintime.co.in</a>.
- For grievances connected with facility for voting by electronic means kindly contact Mr. Rajiv Ranjan, Asst. Vice President, C-101, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West) Mumbai 400083, contact no. 022-49186000 and emailenotices@linkintime.co.in.
- The Board of Directors of the Company at their meeting held on Saturday, 18th May, 2024 has recommended a final dividend of Rs. 1.25/- per share on the face value of Rs. 10/- per share, subject to the approval of members. The Income Tax Act, 1961, as amended by the Finance Act, 2020, mandates that dividends paid or distributed by a Company on or after 1st April, 2020 shall be taxable in the hands of the Shareholders. The Company shall therefore be required to deduct Tax at Source (TDS) at the time of making the final dividend, if declared at the ensuing AGM. The withholding tax rate would vary depending on the residential status, category of the shareholder and is subject to provision of requisite declarations / documents provided by the concerned shareholder to the Company. In order to enable us to determine the appropriate TDS rate as applicable, members are requested to upload the documents at https://liiplweb.linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.htm on or before Monday 09<sup>th</sup> September, 2024.

For detailed instructions pertaining to attend AGM through VC/OAVM and e-voting, members may please refer to the Notice of AGM. In case of any queries or grievances, members may get in touch with the following:

Link Intime India Private Limited Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH-2. C-1 Block LSC, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi-110058 Tel.: +91 11-49411000

Email: delhi@linkintime.co.in Place: Noida Date: 20th August, 2024

Managing Director

PPAP Automotive Limited 54. Okhla Industrial Estate Phase-III, New Delhi-110020 Tel: +91-120-4093901 E-mail ID: investorservice@ppapco.com

For **PPAP Automotive Limited** Pankhuri Agarwal Company Secretary & Compliance Officer

### PODDAR PIGMENTS Poddar Pigments Limited

Regd. Office: E-10-11 & F-14 to 16, RIICO Industrial Area, Sitapura, Jaipur, (Rajasthan) - 302022

Tel. No: 0141-2770202/03. E-mail:com.sec@poddarpigmentsltd.com, Web: www.poddarpigmentsltd.com

NOTICE OF 33RD ANNUAL GENERAL MEETING

## **NOTICE** is hereby given that the 33<sup>rd</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held

on 23<sup>rd</sup> September, 2024 at 11:00 A.M. (IST) through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") facility in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 02/2020, 02/2021, 19/2021, 02/2022, 10/2022 and 09/2023 dated 8<sup>th</sup> April 2020, 13<sup>th</sup> April 2020, 5<sup>th</sup> May 2020, 13<sup>th</sup> January, 2021, 8<sup>th</sup> December, 2021, 5<sup>th</sup> May, 2022, 28<sup>th</sup> December, 2022 and 25<sup>th</sup> September, 2023 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62, SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 and SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated 12<sup>th</sup> May 2020, 15<sup>th</sup> January, 2021, 13<sup>th</sup> May, 2022, 5<sup>th</sup> January, 2023 and 7<sup>th</sup> October, 2023 respectively, issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars") In accordance with the aforementioned MCA Circulars and the SEBI Circulars, the Notice of 33<sup>rd</sup> AGM and the

Annual Report of the Company for the financial year 2023-24 will be sent only by email to all those members, whose email addresses are registered with the Company or with the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) or with their respective Depository Participants ("DPs"). Members can join and participate in the 33<sup>rd</sup> AGM through VC/OAVM facility only. The procedure and instructions for joining the 33<sup>rd</sup> AGM and the manner of participation in the remote e-voting or casting vote through e-voting system during the 33<sup>rd</sup> AGM (including the members holding shares in physical form or whose email addresses are not registered with the DPs/Company/RTA) are provided in the Notice of 33<sup>rd</sup> AGM. Members participating through the VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The Notice of 33<sup>rd</sup> AGM and the Annual Report will also be available on Company's website i.e. www.poddarpigmentsltd.com, Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") website i.e. www.evotingindia.com and websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Ltd. and Nationa Stock Exchange of India Ltd.

Members who have not registered their e-mail address with the Company/RTA/DPs, please follow below instructions for registration of email id for obtaining Annual Report 2023-24 and the login details for e-voting

Physical Please visit the link: https://liiplweb.linkintime.co.in/EmailReg/Email\_Register.html and follow the process for updation of e-mail ID as guided therein. The member who updates their email address post-dispatch of the Notice of 33<sup>rd</sup> AGM of the Company, may request to RTA for issuance, through e-mail, the soft copy of the Notice and the procedure for remote e-voting along with the User ID and password to enable e-voting for this AGM. In case of any query, the member may send an e-mail to RTA at rnt.helpdesk@linkintime.co.in.

Demat Please contact your DP and register your email address in your demat account, as per the process Holding advised by your DP. The Board of Directors of the Company at its meeting held on 19th May, 2024, has recommended dividend of

Rs. 4/- per Equity Share of Rs. 10/- each for the financial year 2023-24, which is subject to approval of the shareholders at the ensuing 33<sup>rd</sup> AGM. SEBI, vide its Circular dated 3<sup>rd</sup> November, 2021, read with subsequent circulars issued in this regard has mandated registration of PAN, KYC details and Nomination, by holders of physical securities. As per the said mandate, members, holding securities in physical form, whose folio(s) are not updated with any of the KYC details [viz., (i) PAN; (ii) Choice of Nomination; (iii) Contact Details; (iv) Mobile Number; (v) Bank Account Details, and (vi) Specimen Signature, shall be eligible for any payment including dividend, interest or redemption payment in respect of such folios, only through electronic mode with effect from 1<sup>st</sup> April, 2024. In accordance with the above, dividends, in respect of physical folios wherein any of the above KYC details are not updated before the cut-off date, will be held back by the Company. Members may please note that the dividends will get credited to their bank account only after the KYC details are updated in the folio. Please update the same by following the below instructions:

Physical Holding Members holding shares in physical form are requested to submit their PAN, KYC and Holding Nomination details by sending a duly filled and signed Form ISR-1, ISR-2, ISR-3 or SH-13, as applicable, to RTA i.e. Link Intime India Private Limited at C - 101, Embassy 247, LBS Marg, Vikhroli (West), Mumbai- 400083. The forms can be downloaded from https://liiplweb.linkintime.co.in /client-downloads.html (under General tab). In case of any query, the member may send an e-mail to RTA at rnt.helpdesk@linkintime.co.in.

Demat

Place: Jaipur

Date: 20<sup>th</sup> August, 2024

Members holding shares in demat form are requested to update their bank account details with their respective DPs Pursuant to the Finance Act, 2020, dividend income is taxable in the hands of the Members w.e.f. 1<sup>St</sup> April, 2020

and the Company is required to deduct Income Tax at Source ('TDS') from dividend paid to the members at prescribed rates in the Income Tax Act, 1961 (the 'IT Act'). In general, to enable compliance with TDS requirements members are requested to complete and/or update their Residential Status, PAN, Category as per the IT Act with their DPs or in case shares are held in physical form, with RTA by sending requisite doc

> By order of the Board of Directors For Poddar Pigments Limited

> > Sd/-**Anil Kumar Sharma** Company Secretary FCS No. 9382



कोफोर्ज

<sup>6,200</sup> नए टिकाऊ समाधान शुरू 🔑 6,050 करनेकेलिए सेन्सफोर्सके साथ किया गठजोड़ ₹ 6,060.2 पिछला बंद्र भाव , 5,750 ₹ 6,111.6 आज का बंद भाव के महिंदा 1.685 1,610 **1,628.4** 1,535

निदेशक मंडल ने महिंद्रा यूनवरिस्टी को १०३ एकड जमीन बेवनेको दी मंजूरी ₹ 1,594.7 पिछला बंद भाव ₹ 1,628.4 आज का बंद भाव हिंदुस्तान जिंक 495.8 512.3 400

प्रति इक्विटी श्रेगर 19 रुपये केक्सरेआंरिम लाभांग को ₹ 495.8 पिछला बंद्र भाव ₹ 512.3 आज का बंद्र भाव

ग्रैकुस इंडिया <sup>695</sup> ग्लाइकोपाइरोल्ट ओरल o-689.2 सॉल्यूगन केलिए एएनडीए की मंजूरी मिली - <sup>665</sup> **₹ 662.2** पिछला बंद भाव <sub>650</sub> **₹ 675.4** आज का बंद भाव



## टाटा वेमिकल्स ने१,७०० करोड़ रुपयेजुराए

टाटा सम्ह की कंप्रनी टाटा केमिकल्स नेनिवेशकों को निजी नियोजन केआधार पर गै-परिवर्तीय डिबेंगर (एनसीडी) जारी कर 1.700 करोड़ रुपयेज्याए हैं टाटा केमिकल्स नेमांलवार को श्रोर बाजार को दी एक स्मूना मेंकहा कि निद्शाक महंल की तरफ सेगठित एक आंगरिक समिति ने1,70,000 एनसीडी आर्बंटित करनेकेप्रस्ताव को मंज़ी दी है इनमेंसेप्रत्येक एनसीडी का मृत्य एक लाख रुपयेते कंप्रनी नेकहा कि तीन साल केलिए एनसीडी जारी कर कुल 1,700 करोड़ रुपयेज्याए गए हैं

## कल्पतरु ने१०१ करोड़ रु का शुद्ध घाटा दर्ज किया

रियल एस्ट्रेट क्यांनी कल्पतरु नेआमदनी घटनेके कारण पिछलेवित्त वर्ष2023-24 केदौरान 100.74 करोड़ रुपयेका एकीका शद्ध घाटा दर्जीकया है कंप्रनी नेआर्भिक सार्कानिक निर्मा (आईपीओ) केजरिये 1,590 करोड़ तक जुरानेकेलिए पिछलेसप्ताह जीू बाजार नियामक स्म्री केमास शुः आती दस्ताका दाखिल किए हैं

## सवाल जवाब

# एमडीआर केलिए अच्छा नियमन, बाजार आधारित तंत्र जरूरी

पिछले महीनेदे श मेंकिए गए सभी ख्रीआई लेनदेन में से 37 प्रतिशत हिस्सेद्वारी गू गल पे की रही। हालांकि यूरीआई जैसे अधिकांश डिजिटल लेनदेन ग्राहकों के लिए निःशल्क हैं लेकिन उनकी लागत फिनटे क फर्मों और बैंकों को उठानी पड़ती है । गूगल पे के निदेशक (उत्पाद प्रबंधन) शरत बुनुसु ने अज़िंग्य कावले के साथ हुई वीडियो बातचीत में यूरीआई केलिए मर्चेंट डिस्काउं ट रेट (एमडीआर) की जरूरत, भारतीय भाषाओं पर कंपनी केध्यान और क्रेडिट रणनीति के औचित्य पर चर्चा की।

बजट विवरण केअनुमार मृत यनिफाइड पेरेंस इंरफेस (यूर्रिआई) लेंग्से की सुवधा केलिए फिनके और बैंकों को प्रोत्साहित करने केलिए आवंटित धन पिछलेबजट केम्फ़ाबले 42 प्रतिशत कम है। क्या यह जल्द ही यूरीआई पर एमडीआर का स्क्रेन है?

लंबी अवधि मेंभुातान पारिस्थितिकी त्रंग हमारेदेश जितने बड़ेस्तर पर व्यावहारिक होना चाहिए। मुझेलगता हैकि वाणिज्यिक रूप सेव्यावहारिक कारोबार बनानेकेलिए



अच्छी तरह सेविनियमित बाजार पर आधारित त्रंग होना महत्वपित हम इस पर बहस कर सकतेहैं और ऐसा करने केविभिन्न तरीकेनिकाल सकतेत्रैं भातान की दिनया में सबसेसामान्य मॉडल एमडीआर हैऔर इसमेंकई तंन्नों का स्प्रीजन हो सकता वैटिकाऊ कारोबार त्यार करनेमेंसक्षम होनेकेलिए रास्तेबनाना महत्वर्णातै यह पारिस्थितिकी त्रं मेंजोखिम कम करनेका एक और तरीका भी है सभी कंप्रनियांउपभोक्ताओं और व्यापारियों की तरफ सेभारी मात्रा मेंधन स्थानांगिरत कर रही हैं यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वेनए उपयोग का समर्थ्म करनेकेलिए

निवेश और नवाचार करना जारी रख सकें

क्या आपको इस बात की उम्मीद हैकि य्मीआई लेखे केलिए एमडीआर शुरू किया जा सकता है?

तंत्रं मेंहर कोई को कुछ व्यवस्था की उम्मीद कर रहा है एन-पीसीआई इसेपहलेही लागूकर चुका है जैसेयूरीआई से जुड़े ब्रेडिट कार्डों के लिए। मैं इसके समय को लेकर अनुगन तो नहीं लगा सकता ह़लेंकिन ऐसा जरूर लगता हैकि चीजेंउस दिशा मेंबढ़ रही हैं जो सही रास्ता है आखिरकार सरकार भी उस बृद्धि को सब्सिडी देशा जारी नहीं रख सकती। वेइसेप्रोत्साहित कर सकतेहैंऔर इसीलिए उन्हेंप्रोत्साहन कहा जाता है किसी ना किसी मोड़ पर तो आपको प्रोत्साहन बंद करनेही होंगेऔर सभी को बताना होगा कि इस व्यवस्था केयेनियम हैं जिनका पालन करके कंप्रनियांयह तय कर सकती हैंकि उन्हेंकिस तरह का कारोबारी मॉडल अपनाना है

य्मीआई मेंबाजार हिस्सेदारी की चिंगाओं को त करनेकेलिए आप कौन सेकैक्लिपक समाधान

कुछ हदतक हम अब भी यूरी आई केस्कु आती दौर मेहैंऔर अब भी काफी वृद्धि हो सकती है नवाचार और वृद्धि वेलिए

जगह बनाना शायद समय की सबसेजरूरी जरूरत हैऔर इसेवॉल्या सीमित करकेहल नहीं किया जा सकता है हमें नई फिनके कंपनियों केलिए जगह बनानी होगी। इसेकिसी ऐसी समस्या केतौर पर देखनेकेब्रजाय, जहांकोई सीमा हो. हम इसेनवाचार को बढ़ावा बेंऔर अधिक कंप्रनियों को आगेआनेमेंसक्षम बनानेकेरूप मेंबेबतेतैं

गाल पेका साद्धपॉड बाजार मेंकिसी अन्य उत्पाद की तुनना मेंकिस तरह अलग है? आप ऐसेकितनेउपकरण देक्केहैं?

हमनेप्राहकों को दिए गए साउंडपॉड की संख्या सार्कानिक रूप सेपाझा नहीं की है लेकिन हमारा लक्ष्य अगलेपाल या उसकेआसपास पूेबाजार मेंसाऊंपॉड की मौजूरगी को दोमाा सेज्यादा करना है

आप भातान मेंवृद्धि केअगली दौर और 30 करोड उपयोगकर्ताओं को वैसेजोड़ी? हम भारतीय भाषाओं मेंभारी निवेश कर रहेीं उन्हेंग्री तरह सेर्णाविश्वाता वालेतरीकेसेसमर्था देश और ज्यादा ग्राहकों को जोड़नेका एक तरीका है गाल केअलग-अलग ऐसेभाग हैं जो अलग-अलग भाषाओं मेंसामग्री त्यार करनेकेलिए आर्विफशल ब्रेंलिजें। (एआई) के

# टीसीएस नेस्टॉकहोम मेंशुरु किया नया पेस स्तूडियो

टाटा कंसल्देंसी सर्विका (टीसीएस) नेआज स्टॉकहोम मेंपेस स्दूडियो शुरू करनेका ऐलान किया, जो नॉर्डिंग क्षेत्र के ग्राहकों को अपने नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र तक पंच प्रदान करेगा। यह इस आईटी स्क्रा क्षेत्र की क्ष्रनी का चौथा आं-रराष्ट्रीय पेत स्दुडियो और नॉर्डिंग क्षेत्र मेंपहला पेत स्दूडियो है

PPAP

टीसीएस पेत स्दुडियो किसी ऐसेइनक्ख्रेटर के रूप मेंस्टार्छाप क्षेत्र का विकास करता है जो समस्याओं का समाधान करता हैऔर कारोबारी अवसर पैद्रा करता है इस न्टेवर्कमेरियाद, सिडनी और ल्टेरकेनी (आयरलैंड) में तीन अन्य टीसीएस पेत स्दूडियो तथा टोक्यो, एम्सटर्झ,

सात टीसीएस पेस पोर्टशामिल वैं स्टॉकहोम का यह नया टीसीएस पेत स्टिडयो परामर्श डिजाइन और कार्यावयन सहित नवाचार क्षमताएंप्रदान करेगा। यह कंप्रनी के क्षेत्रीय ग्राहकों को नई योजनाएंतलाशने निर्मित करने प्रदर्शित करने तथा अपनेमॉडल और रणनीतियों को परिष्क्र



**गंजीकृत कार्यालय :** 54. ओखला औद्योगिक एस्टेट, फेज—।।।, नई दिल्ली—110020 **नेगमित कार्यालय :** बी–206ए, सेक्टर–81, फेज–।।, नोएडा–201305, उत्तर प्रदेश रभाष : +91-120-4093901

बसाइट : www.ppapco.in, ई-मेल आईडी : investorservice@ppapco.com

एतदद्वारा यह सूचना दी जाती है कि पीपीएपी ऑटोमोटिव लिमिटेड **("कंपनी")** के सदस्यों की 29वीं वार्षिक आम बैठक **("एजीएम")** शुक्रवार, 13 सितंबर, 2024 को मध्या. 11:30 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग **("वीसी")** / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों **("ओएवीएम")** के माध्यम से आयोजित की जाएगी, ताकि 29वीं वार्षिक आम बैठक बुलाने के नोटिस में निर्धारित व्यवसाय को पूरा किया जा सके, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 **("अधिनियम")** के लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी 5 मई, 2020 के सामान्य परिपन्न संख्या 20/2020 औ 25 सितंबर, 2023 के 09/2023 के साथ सेबी परिपन्न दिनांक 7 अक्टूबर, 2023 के साथ पढ़ें, के अनुसार आयोजित की जायेगी। एजीएम का स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय यानी 54. ओखल औद्योगिक एस्टेट, फेज ।।।, नई दिल्ली–110020 माना जायेगा।

उपर्युक्त परिपत्रों के अनुपालन में. 29वीं एजीएम की सचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रति वित्तीय वर्ष 2023–24 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा उन सदस्यों को भेजी गई है, जिनके ईमेल पते कंपनी / रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट **("आरटीए")** / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों **("डीपी")** के पार मंगलवार 20 अगस्त 2024 के अनुसार पंजीकृत हैं। 29वीं एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2023–24 की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट अर्थात् www.ppapco.in पर और आरटीए की वेबसाइट यानी https://instavote.linkintime.co.in पर और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bscindia.com पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर भी देखी जा सकती है।

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) संशोधन नियमावली २०१५ के नियम २० तथा भारतीय प्रतिभति एवं विनिमर बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियमावली 2015 के विनियम 44 के साथ अधिनियम की धारा 108 के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों को ई—वोटिंग की सुविधा प्रदान करके संतुष्ट है, ताकि वे 29वीं वार्षिक आम बैठक में पारित किए जाने वाले प्रस्तावित प्रस्तावों फ -जोटिंग गणानी का जागोग करके रनेक्टॉनिक मध्यम में भाजा तोट राज मकें। सदस्यगण निम्नलिखित बातों पर भी ध्यान दें :

अधिनियम की धारा 91 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार, कंपनी के सदस्यों व रजिस्टर तथा शेयर हस्तांतरण बहियाँ 29वीं वार्षिक आम बैठक तथा लाभांश के उद्देश्य से शनिवा 07 सितम्बर 2024 से बृहस्पतिवार 12 सितम्बर, 2024 तक (दोनों दिन सिम्मिलित) बंद रहेंगी।

. केवल कट—ऑफ तिथि यानी शुक्रवार, 06 सितंबर, 2024 के अनुसार भौतिक रूप में या डीमैट रू में शेयर रखने वाले सदस्यगण, वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग या इंस्टा पोल के माध्यम से अपना वोट डालने के पात्र होंगे। वह व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि के अनुसार सदस्यों / लाभार्थियों के मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है केवल वही एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग / ई-वोटिंग की सविधा का लाभ उठाने का हकदा होगा और वह व्यक्ति जो कट–ऑफ तिथि के अनुसार एक सदस्य नहीं है, उसे एजीएम की सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य से लेना चाहिए।

. रिमोट ई—वोटिंग अवधि सोमवार, 09 सितंबर, 2024 (प्रातः 9:00 बजे आईएसटी) से आरंभ होगी औ गुरुवार, 12 सितंबर, 2024 (सायं 5:00 बजे आईएसटी) को समाप्त होगी। उक्त तिथि और समय बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जायेगी।

कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद सदस् बनता है और कट-ऑफ तिथि यानी शुक्रवार, 06 सितंबर, 2024 को शेयर रखता है, वह लॉगिर

आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने और अपना वोट डालने के लिए कंपनी / आरटीए से संपर्क क सकता है। वे सदस्यगण, जो वीसी/ओएवीएम सविधा के माध्यम से एजीएम में भाग लेने का इरादा रखते और रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाल सके और उन्हें ऐसा करने से अनुभा प्रतिबंधित नहीं किया गया है वे एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट

करने के पात्र होंगे। इसके अलावा, जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन वे एजीए में वोट करने के पात्र नहीं होंगे। . एक बार जब सदस्यों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में किसी प्रस्ताव पर वोट डाल दिया जाता है

सदस्यों को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं होगी।

जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे इसे पंजीकृत क भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में, सदस्यगण लिंक पर क्लिक करके पंजीकरण कर सक हैं: https://liiplweb.linkintime.co.in/EmailReg/Email\_Register.html और वहां उसर निर्देशित पंजीकरण प्रकिया का पालन करें और दीमैट रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में सदस्या ऊपर उल्लिखित लिंक पर क्लिक करके और उसमें निर्देशित पंजीकरण प्रक्रिया का पालन करव अस्थायी रूप से अपना ईमेल पता पंजीकृत कर सकते हैं, लेकिन स्थायी पंजीकरण के लिए सदस्य को संबंधित डीपी से संपर्क करना होगा। किसी भी प्रश्न की स्थिति में, सदस्यग rnt.helndesk@linkintime.co.in पर आरटीए को एक ईमेल भेज सकते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से संबंधित शिकायतों के लिए कृपया श्री राजीव रंजन सहायक उपाध्यक्ष, सी-101, 247 पार्क, एल.बी.एस. मार्ग, विक्रोली (पश्चिम) मुंबई 400083, संप संख्या 022-49186000 और ईमेल- enotices@linkintime.co.in से संपर्क करें।

कंपनी के निदेशक मंडल ने शनिवार, 18 मई, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में सदस्यों अनमोदन के अधीन, 10/- रुपये प्रति शेयर के अंकित मूल्य पर 1.25/- रुपये प्रति शेयर व एक अंतिम लाभांश देने की सिफारिश की है। वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधितानुसार आय क अधिनियम, 1961 के अनुसार, 1 अप्रैल, 2020 को या उसके बाद किसी कंपनी द्वारा भुगतान वितरित किए गए लाभांश शेयरधारकों के हाथों में कर योग्य होंगे। इसलिए कंपनी को अंतिम लाभां बनाते समय स्रोत पर कर (टीडीएस) काटना होगा. यदि आगामी एजीएम में घोषित किया जाता है कर कटौती की दर शेयरधारक की आवासीय स्थिति, श्रेणी के आधार पर अलग–अलग होगी औ संबंधित शेयरधारक द्वारा कंपनी को प्रदान की गई अपेक्षित घोषणाओं / दस्तावेजों के प्रावधान व अधीन होगी। हमें उचित टीडीएस दर निर्धारित करने में सक्षम बनाने के लिये, सदस्यों से अनुरो है कि वे https://liiplweb.linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html प सोमवार 09 सितंबर, 2024 को या उससे पहले दस्तावेज़ अपलोड करें।

वीसी / ओएवीएम और ई—वोटिंग के माध्यम से एजीएम में भाग लेने से संबंधित विस्तृत अनुदेशों लिये, सदस्यगण कृपया एजीएम की सूचना देखें। किसी भी प्रश्न या शिकायत की स्थिति में, सदस्यग नेम्नलिखित से संपर्क कर सकते हैं

लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नोबल हाईट्स, प्रथम तल, भूखंड सं. एनएच–2, सी–1 ब्लॉक एलएससी, सावित्री मार्किट के पास,

स्थान : नोएडा

दिनाँक : 20 अगस्त, 2024

जनकपुरी, नई दिल्ली – 110058 दरभाष : 91 11-49411000 र्इमेल : delhi@linkintime.co.in

पीपीएपी ऑटोमोटिव लिमिटेड 54, ओखला औद्योगिक संपदा फेज-।।।, नई दिल्ली-110020 दरभाष : 91-120-4093901

ईमेल आईडी : investorservice@ppapco.com कते पीपीएपी ऑटोमोटिव लिमिटेर

हस्ताः 🖊 पंखुड़ी अग्रवाल कंपनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी

दिनांक 21.08.2024

न्यूॉर्क, पिट्सबर्ग टोस्ंो, ल्द्रंन और पेरेस में

करनेमेंसक्षम करेगा।

Dish TV India Ltd

**DISH TV INDIA LIMITED** Regd. Office: Office No. 803, 8th Floor, DLH Park, S. V. Road, Goregaon (West), Mumbai-400 062 Corp. Office: FC-19, Sector 16 A, Noida - 201 301, U.P. E-mail: investor@dishd2h.com, CIN: L51909MH1988PLC287553

Website: www.dishd2h.com: Tel: 0120-5047000. Fax: 0120-4357078

NOTICE OF 36™ ANNUAL GENERAL MEETING AND PROCESS FOR E-MAIL REGISTERATION

Notice is hereby given that the 36th Annual General Meeting ('AGM') of the members of Dish TV India Limited wil be held on Friday, September 13, 2024 at 11:30 A.M (IST) through Video Conferencing ('VC') / Other Audio The AGM will be convened in compliance with applicable provisions of the Companies Act. 2013 read with the

Rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with all the relevant circulars issued by Ministry of Corporate Affairs ('MCA') and Securities and Exchange Board of India ('SEBI'). The Company has entered into an agreement with National Securities Depository Limited ('NSDL') for facilitating voting through electronic means, as the authorized agency. The facility of casting votes by a member using remote e-voting system as well as voting on the date of the AGM will be provided by NSDL Detailed procedure for remote e-voting / e-voting and participation in AGM through VC/OAVM by the Members

In compliance with the applicable Circulars, the Notice of AGM along with Annual Report for the Financial Year 2023-24 will be emailed to all the Member of the Company whose email addresses are registered with the Company /RTA/ Depository Participants. The aforesaid documents will also be available on the website of the Company at www.dishd2h.com and Website of BSE Limited Ltd. ('BSE') at www.bseindia.com, National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) at www.nseindia.com and NSDL at www.evoting.nsdl.com.

The process for registration/updation of e-mail addresses is as under:-

(i) For shares in physical mode: Members holding shares in physical mode and who have not registered/updated their email addresses with the Company are requested to register/update their email addresses by submitting Form ISR-1 duly filled and signed along with requisite documents to Link Intime India Private Limited, Registrar and Share Transfer Agent at rnt.helpdesk@linkintime.co.ir

(ii) For shares in electronic mode: Members are requested to register their email address, in respect of demat holdings with the respective Depository Participant (DPs) by following the procedures prescribed by the DPs.

Place: Noida Date: August 20, 2024

Raniit Singh Company Secretary & Compliance Office

# अभिरुचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण **जॉनसन वॉच कंपनी प्राइवेट लिनि**

	Sileilo	ids iddcei		
1.	पैन/सीआईएन/एलएलपी संख्या के साथ कॉर्पोरेट देनदार का नाम	<b>जॉनसन वॉच कंपनी प्राइवेट लिमिटेड</b> पैनः AABCJ9807G सीआईएनः U33302DL2008PTC176153		
2.	पंजीकृत कार्यालय का पता	सी-16, कर्नॉट प्लेस, नई दिल्ली, एन ए, नई दिल्ली - 110001		
3.	वेबसाइट का यूआरएल*	https://www.johnsonandco.in		
4.	उस स्थान का विवरण जहां अचल संपत्तियों का बहुमत स्थित है	उपलब्ध जानकारी के आधार पर अधिकांश अचल संपत्तियां नई दिल्ली में स्थित		
5.	कॉर्पोरेट देनदार के मुख्य उत्पादों/सेवाओं की स्थापित क्षमता	कॉर्पोरेट देनदार मल्टी ब्रांड लक्जरी घड़ियों और सहायक उपकरणों की खुदरा बिक्री में है।		
6.	पिछले वित्तीय वर्ष में बेचे गए मुख्य उत्पादों ⁄सेवाओं की मात्रा और मूल्य	ह. 10211.05 लाख (वित्त वर्ष 2021-2022 के लेखापरीबित वित्तीय विवरणों के अनुसार) वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए लेखापरीबित वित्तीय विवरण और साथ ही दिवालियापन प्रारंभ तिथि पर अनंतिम वित्तीय विवरण वर्तमान में आरपी के पास उपलब्ध नहीं हैं।		
7.	कर्मचारियों ⁄वर्कमैन की संख्या	उपलब्ध जानकारी के आधार पर, कोई कर्मचारी/श्रिमिक नहीं है। आईआरपी और आरपी को कर्मचारी/श्रिमिक से कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है		
8.	दो वर्षों के अंतिम उपलब्ध वित्तीय विवरणों (अनुसूचियों के साथ), लेनदारों की सूची, प्रक्रिया की बाद की घटनाओं हेतु प्रासंगिक तिथियां सहित अधिक विवरण यहां उपलब्ध हैं*	अधिक जानकारी के लिए कृपया ईमेल cirpjohnsonwatchcompanyprivate@gmail.com; और atulgala.cirp@gmail.com लिखे।		
9.	संहिता की धारा 25(2)(एच) के तहत समाधान आवेदकों के लिए पात्रता*	अधिक जानकारी के लिए कृपया ईमेल cirpjohnsonwatchcompanyprivate@gmail.com; और atulgala.cirp@gmail.com लिखे।		
10.	रुचि की अभिव्यक्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि**	10 सितम्बर, 2024		
11.	संभावित संकल्प आवेदकों की अनंतिम सूची जारी करने की तिथि**	20 सितम्बर, 2024		
12.	अनंतिम सूची पर आपत्तियां प्रस्तुत करने की	25 सितम्बर, 2024		
	अंतिम तिथि**	25 ((( 1) 252)		
13.	अंतिम तिथि** संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तारीख**			
13. 14.	अंतिम तिथि** संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची			
	अंतिम तिथि** संभावित समाथान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तारीख** संभावित समाथान आवेदकों को सूचना ज्ञापन, मुल्यांकन मैट्रिक्स और समाधान योजनाओं के	5 अक्टूबर, 2024 10 अक्टूबर, 2024		

वैश्वक ऑनलाइन स्पोटर्सबेंद्रा और आईगेमां क्प्रनी फ्लटर एंटर-देमेंट ने आज हैदराबाद में 35 लाख करोड़ डॉलर केनिवेश केसाथ एक नया वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) खोला।

हैदराबाद में80,000 वर्गपुर के इस जीसीसी में 700 से ज्यादा कर्मचारी होंगेऔर देश इंजीनियरिंग, में। इंग्रिटी तथा अन्य प्रमुख कार्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा। कंप्रनी साल 2024 तक अपनेकर्म्वारियों की संख्या बढ़ाकर 900 तक करनेऔर साल 2026 तक 40 प्रतिशत महिला नेतुव स्तर हासिल करनेकी

भी योजना बना रह है फ्लटर एंट्रसेमेंट के मुख्य परिचालन अधिकारी फिल बिशप ने कहा 'भारत मेंहमारा विस्तार फ्लटर की वृद्धि मेंबहुत बड़ी उपलब्धि का स्क्रेन हैऔर यह वैश्विक स्तर पर कारोबार विकास को बढ़ावा खेके लिए शीर्षप्रतिभाओं मेंनिवेश करने की हमारी निसंर प्रतिबद्धता को दर्शाता है' हैंदराबाद सेबाहर स्थित टीमेंग्डी पावर, सिसल, स्काई बेंद्रां ऐंड गैमां, पोकरस्टार्स स्पोट्सीट और ब्रेटपेग्रर जैसेब्रांहों मेंवैश्विक स्तर पर इसकी वृद्धि मेंमदद करनेमें महत्वर्णूाभूमका निभाएं।।

28th August 2024 को (बंधक आभूषणों की-एनपीए खातों) आयोजित होने वाली सार्वजनिक नीलामी कुछ अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है और अब 23<sup>rd</sup> September 2024 को सार्वजनिक . नीलामी पन: निर्धारित की गई है। सार्वजनिक नीलामी का स्थान एवं समय वही रहेगा जो कि पहले ही संबंधित कर्ज़दारों को अधिसूचित किया जा चुका है। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, इच्छुक व्यक्ति हमारे क्लाइंट की संबंधित शाखा में सम्पर्क कर सकते हैं। कोहली एण्ड सोब्ती, एडवोकेट ए 59ए,

पहली मजिल, लाजपत नगर-॥, नई दिल्ली - 110024

ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भगतान करके अपने गिरवी रखे गहनों को छड़ा सकते हैं। ग्राहक **ईमेल आईडी: recoverynorth@muthootgroup.com** या 7834886464, 7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

# 

## एन एम डी सी लिमिटेड

बनिज भवन 10−3−311/ए, कैसल हिल्स, मासाब टैंक, हैदराबाद−500 028 नैगम पहचान संख्या (सीआईएन) - L13100TG1958GO1001674

वर्कस प्रभाग - संविदा विभाग ई-निविदा सूचना (घरेलू बोली के लिए खुली निविदा पूछताछ)

निविदा पूछता<mark>छ संः म्.(वर्कस)/संविदा/ईआरपी/एसएपी एएमसी/2024/1046/215 दिनांकः 20.08.2024</mark> नएमडौंसी लिमिटेंड इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की एक नवरत्न'' कंपनी है जो **"एसएपी एस 4 / हाना वार्षिक रखरखाव अनुबंध — एनएमडीसी** के लिए सेवा प्रदाता के चयन हेतु अनुभवी घरेलू बोलीकर्ताओं से ऑनलाइन बोलिया

वेस्तृत एनआईटी एवं बोली कागजात निम्नांकित वेबसाइटों लिंकों पर **20.08.2024 से** 17.09.2024 तक अवलोकन तथा / अथवा डाउन लोड किए जा सकते हैं: एनएमदीसी वेबसाइट - http://www.nmdc.co.in

. केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल(सीपीपी पोर्टल) - http://www.eprocure.gov.in/epublish/app . एमएसटीसी पोर्टल - https://www.mstcecommerce.com/eprocn/ मएसटीसी पोर्टल पर बोली कागजातों की एक्सेसिंग के लिए, बोलीकर्ता एमएसटीसी की

ाबसाइट लिंक https://www.mstcecommerce.com/eprocn/ पर जाएं तथा निविदा सं. **एनएमडीसी / हेड ऑफिस / संविदा / 11 / 24–25 / ईटी / 398** सर्च करें। अतिरिक्त ाहायता के लिए कृपया एमएसटीसी के वेबसाइट पर दिए गेए 'वेंडर गाईड' देखें। बोलीकर्ताओं से अनुरोध किया जाता है कि एमएसटीसी लिमिटेड ई–प्रोक्योरमेंट वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन अपनी बोली प्रस्तुत करें।

अतिरिक्त स्पष्टीकरण के लिए जिम्नांकित से संपर्क किया जा सकता है: महाप्रबंधक (संविदा, परियोजना एवं इस्पात), एनएमडीसी लिमिटेड, हैदराबाद, फैक्स नं. 040—23534746 महाप्रब्ह्यक (सावदा, भारवाणामा ५४ वरताणा ५५) फोन नं. 040—23532800 ईमेलः **contracts@nmdc.co.in** अधिशासी निदेशक (वर्कस)

बोर्ड के आदेशानुसार कृते विपुल लिमिटेड

### विपुल लिमिटेड Y CIN No.: L65923DL2002PLC167607

दूरभाष सं.: 0124-4065500, वेबसाइटः www.vipulgroup.in शेयरधारकों के लिए सूचना

स्वयस्थारको क लिए सूचना एतद्द्वारा विपुल लिमिटेड ("कंपनी") के शंयरधारको को सुधित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के साथ पठित इनवेस्टर एजूकेशन एण्ड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी (एकाउंटिंग, ऑडिट, ट्रांसफर एवं रिफंड) नियम, 2016 के नियम 6 के साथ इनवेस्टर एजूकेशन एण्ड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी (एकाउंटिंग, ऑडिट, ट्रांसफर एवं रिफंड) संशोधन नियम, 2017, जिसे यहां बाद में "आईईपीएफ नियम" कहा गया है के

संबंधित शेयरधारकों जिन्होंने वित्त वर्ष 2016-17 से आगे लगातार 7 वर्षों में लाभांश वारंट का नकदीकर सबाधत शयरधारका ।जन्हान ।वत्त वब 2016-17 स आंग लगातार 7 वद्या म लामाश वास्ट का नकदांकरण नहीं कराया है, उन्हें इस संदेख में एंक बार 19रू व्यक्तिगत सूचनाओं के माध्यम से सूचित किया जाता है सदस्यगण ध्यान दें कि, 22 सितम्बर, 2017 को आयोजित कंपनी की वार्षिक साधारण बैठक में कंपनी द्वार धारित तथा जो अमुक्त लामांश के हस्तांतरण की तारीख से सात वर्षों की अवधि के लिए कंपनी के पास दावारहित रूप में पड़े हुए हैं, ऐसे शेयरों को उसे कंपनी को वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान इनवेस्टर एजूकेशन एण्ड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी में हस्तांतरित करना होगा।

तुएवं. सभी शेयरों जिनके परिप्रेक्ष्य में पिछले लगातार 7 वर्षों के लिए लाभांशों का दावा नहीं किया ग iii) अत्युप्, रामा रामर जिमके पाऽप्रकर्य न पिछल लगावार ग्याप के गल्स लामाशा क्या वर्षा प्राच्या पर है, आईईपीएफ नियमों के अनुसार उन सभी शेयरों को डिमैट खाते में हर्सतांत्रित कर दिया जाएगा। iv) ऐसे शेयरघारकों के नाम तथा उनके फोलियो नम्बर अथवा डीपी आईडी-क्लाइंट आईडी सम्मिलित विवर

कंपनी की वेबसाइट यानी www.vipulgroup.in पर उपलब्ध है। जिन शेयरधारकों ने वित्त वर्ष 2016-17 से पिछले 7 लगातार वर्षों से अपने लामांशों का दावा नहीं किया है, और अधिक विवरण तथा वैध दावा दाखिल करने के लिए वे पंजीयक तथा शेयर अंतरण एजेंट्स मैसर्स एमएएस सर्विसेस लि., टी-34, दूसरी मंजिल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली-110020 अथवा कंपनी के कॉरपोरेट कार्यालय के पास 28 नवम्बर, 2024 को अथवा उससे पहले लिख सकते हैं। अगर कोई वैघ तावा नहीं किया जाता है, तो कंपनी कॉरपोरेट कार्याइंद्व द्वारा अथॉरिटी के डिमैट खाते के पक्ष में संबंधित शेयरों के हस्तांतरण के लिए डिपॉजिटरी को सूचित करेगी।

कोई भी व्यक्ति, जिनके शेयर एवं दावा रहित लाभांशों को फंड में हस्तांतरित कर दिया गया है, उन्हें आईईपीएफ नियमों में निर्धारित दस्तावेज जमा कर तथा संबंधित प्रक्रियाओं के अनुसार अथॉरिटी से शेयरों तथा दावारहित लाभांशों का दावा करना होगा। यह सचना आईईपीएफ नियमों के नियम 6(3)(ए) के अनसार है।

तारीख : 20 अगस्त, 2024

# इंजीनियरिं। एवं इनोक्शन स्टेंर बनाएगी श्वेरॉन

इस्तेगल मेनिक्श कर रहेहैं

शिवानी शिंदे बुई, 20 अगस्त

वैश्वक ऊर्जा समाधान प्रदाता श्रेवरॉन बेंालूर मेंअपनेनए शोध एवं विकास केंद्र 'श्वेगरॉन इंजीनियरिंग ऐंड इनोवेशन ऐक्सीलेंस सेंटर' (ईजिन) पर 1 अरब डॉलर का निवेश कर रही है भारत मेंग्रह कंप्रनी का पहला प्रमुख इंजीनियरिं। एवं नवाचार केंद्र होगा।

श्वेरॉन ईजिन बेलंडू केनिकट बनेगा और इसमेंइंगीनियरिंग और डिजिटल स्त्राओं सेज्ड्री प्रतिभाएं रखी जाएंगे। 2025 के आं तक लगभग 600 भर्तिगंकी जाएंगे, जिनकी संख्या समय फ़ुरनेकेसाथ बढाई जाएगी। श्रेवरॉन ईंडिया केवंद्री हेंड अक्षय

साहनी नेकहा कि श्रेवरॉन के145 साल के इतिहास में इस केंद्र की स्थापना बडी उपलब्धि होगी। ह्यूटन और कैलिफोर्निया में एक बड़े तकनीकी केंद्र केअलावा कंप्रनी के पास एबरडीन मेंक्र छोटी प्रयोग-शालाएं तैं भारत कंप्रनी के बड़े प्रौद्योगिकी केंद्रों मेंश्मार होगा।

साहनी नेएक वीडियो इंरव्यूमें बिजनेत स्टैंड को बताया, 'हम मानतेहैंकि ऊर्जाक्षेत्र केलिए यह शानदार दौर है जहांऊर्जाकी बढती मां। पूर्ी करनेकेसाथ ही भविष्य के लिए कम कार्बा उत्सर्जा वाली ऊर्जाव्यवस्था तैगर करनेकी दोहरी चुौती है यहां ईजिन' मेंलोग उन तकनीकी समाधानों की दिशा मेंकाम करनेमेंमदद करें।

कंप्रनी ने इंजीनियरिंग के सभी

क्षेत्रों - मौनिकल, वेमिकल कंग्रर साझं और इलेक्टिकल इंजीनियरिं। से भर्तिंगं करेगी। वह भृविज्ञान, भृगौतिकी और पर्यवरण विज्ञान विश्लोज्ञों को भी रखेगी। साहनी नेजोर केर कहा कि 13 अरब डॉलर का निवेश दिखाता हैं के कंप्रनी धन लगानेकेलिए ही नहीं बल्कि वैश्विक दक्षता की साझेरारी का संकल्प भी पा कर रही है यह केंद्र परिचालन स्बंधित विश्वसनीयता में सुपार केसाथ कम कार्बा वालेऊर्जा समाधानों और कार्बा भंदारण के लिएजमीन केनी चेंभ्रेश्विज्ञान पर भी ध्यान देा। साहनी नेकहा कि बाहरी तकनीकी स्त्राओं केसाथ स्त्रारॉन की भागीदारी लगातार मददगार साबित होगी क्योंकि उसनेबाहरी साझेदारियों और बेसी भागीदारियों केलिए उसके पास योजनाएंहैं

साहनी नेयह भी कहा कि भारत में खुः का केंद्र तैगार करनेका मतलब यह नहीं है कि बाहरी तकनीकी स्वाओं की जरूरत या अहमियत कम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि श्रेवरॉन कई वर्षों सेभारत मेंहैऔर प्रौद्योगिकी स्वा कंप्रनियों के साथ कंप्रनी केरबंध अच्छेरहेतैं उन्होंने कहा, 'प्रौद्योगिकी स्त्रा क्प्रनियों ने हमारी कुछ जटिल परियोजनाओं और परिचालन सुविधाओं को त्यार करनेमेंमदद की है हम इंजीनियरिं। स्रेता कंप्रनियों केसाथ अपनेअनुभव को बढ़ाकर उसका फायदा उठाना चाहतेवैं' साहनी नेकहा कहा कि कंप्रनी को सभी तरह की भागीदारियों की जरूरत होगी और इसमेंबाहरी स्रेवा प्रदाता भी होंगे

## ... उत्पादन घटा रही मारुति

फाडा केअनुपर उसकेसदस्यों के पास करीब 7,30,000 अनिबकी कारों का स्टॉक हैजो दो महीनेतक कारों की मां। को पा करनेकेलिए पर्यात है दुसरी ओर सायम का कहना हैकि डीलरों के पास करीब 4 लाख अनिबकी कारों का स्टॉक है

सुजूकी मोटर कॉर्पोशिन ने विश्लोकों सेकहा, 'पहली तिमाही मेंभारतीय बाजार मेंकारों की मां। बाकी साल की तुनना मेंथोडी कम रही हैमगर इस साल बिक्री की रफ्तार उम्मीद सेभी कम है चावों और प्रतिकुल मौसम सेभी बिक्री प्रभावित हुई तै अनबिकी कारों का स्टॉक बढ़ गया है इसलिए हम उत्पादन उस हिसाब सेघटा रहेतें इस साल त्योहारों का मौसम अगस्त आं सेश्रूक हो रहा है और इस दौरान कारों की मां। बढने की

चाल्वित्त वर्षकी पहली तिमाही मेंनारुति सुक्की का उत्पादन पिछले साल की समान अवधि की तुनना में 7.4 फीसदी बढ़कर 4,96,000 कारों की रही। इस दौरान क्रांनी की बिक्री महज 1.2 फीसदी बढ़कर 4,27,000 कारों की रही। देश के कार बाजार मेंमारुति की हिस्सेदारी सबसेज्यादा 40 फीसदी है

सुक्की मोटर नेकहा, 'सायम ने इस साल कारों की बिक्री 2 से3 फीसदी बढ़नेका अनुगन लगाया तै वित्त वर्षकी ब्सरी छमाही मेंहम बिक्री बढ़ाने का प्रयास करें। जुनाई मेंखुरा बिक्री अप्रैत-जु की तुनना में थोड़ी बढ़ी है और पिछलेसाल की समान अवधि की तुनना में 3 फीसदी बढ़ी है मगर अनिबकी कारों को खपाना भी जरूरी है त्योहारों के दौरान मां। बढ़नेसेअनबिका स्टॉक का स्तर कम हो सकता है'

चुंजीसी आईपीई प्रावेट लिमिटेड हेतु जॉनसन वॉच कंपी प्रावेट लिमिटेड के समावान पेशेवर आईपीई पंजीकरण सं. IBBV/IPE-0123/IPA-1/2023-24/50069 302, तीसरी मंजिल, रीजेंट वैंबर, जमनालाल बजाज रोड, नरीमन पॉइंट,